

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.100/महाराष्ट्र-लोकसभा/1/2018

दिनांक : 29 मई, 2018

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
महाराष्ट्र,  
मुम्बई।

**विषय : 11-भन्डारा-गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन-पुनः मतदान-तत्संबंधी।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 11-भन्डारा-गोंदिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से दिनांक 28 मई, 2018 को आयोजित उप निर्वाचन के लिए हुए मतदान के संबंध में 11-भन्डारा गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आपके/संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/प्रक्षेक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तथा सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 की उप-धारा (2) के अधीन, आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विधान निर्वाचन क्षेत्र के सामने उल्लिखित मतदान केन्द्रों पर दिनांक 28 मई, 2018 को हुआ मतदान नीचे दिए विवरण के अनुसार रद्द किया जाता है और दिनांक 30 मई, 2018(बुधवार) को **पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक (63-अर्जुनी मोरगांव(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)** के समय को ऐसी तारीख एवं समय के रूप में नियत किया जाता है जिसके दौरान रिटर्निंग अधिकारियों के लिए हैण्डबुक के अध्याय XIII में निहित आयोग के अनुदेशों के अनुसार नया मतदान होगा:-

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	मतदान केन्द्रों की संख्या
1.	61-भण्डारा (अ.जा.)	302,318,320,335,362,403,405,374,314,317,322,428,429 और 363
2.	62-साकोली	306,316,292 और 287
3.	63-अर्जुनी मोरगांव(अ.जा.)	108 और 159
4.	64-तिरोरा	45,97,102,108,205,215,38 और 52
5.	65-गोंदिया	50,78,94,115,116,117,123,169,176ए,194,200,206,218, 225,233,240,250,253,271,276, और 303ए

2. पुनः मतदान के लिए मतदाताओं के बाएं हाथ की अनामिका उंगली "अमिट स्याही" लगाने के लिए उपयोग की जाएगी।

3. इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि मतदान क्षेत्रों में ढोल आदि बजाकर व्यापक प्रचार किया जाए तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/प्रेक्षकों को उक्त तारीख को होने वाले नए मतदान के बारे में लिखित में सूचित किया जाना चाहिए।
4. कृपया सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों/प्रेक्षकों को तुरंत सूचित किया जाए और आयोग की सूचना के अन्तर्गत उन्हें तदनुसार कार्य करने के निर्देश दिया जाएं।

भवदीय,

ह./-  
(ए.एन दास)  
सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. 11-भन्डारा-गोंदिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी
2. सहायक रिटर्निंग अधिकारी
  - (i) 61-भण्डारा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र (ii) 62-साकोली विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र
  - (iii) 63-अर्जुनी मोरगांव(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र (iv) 64-तिरोरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
  - (v) 65-गोंदिया विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
3. सामान्य प्रेक्षक
  - (i) श्री एन. बी. उपाध्याय (जी-21815)
  - (ii) श्री तेज प्रताप फुल्का (जी-23262)